



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)—246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष / Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स / Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक:परीक्षा निय0कार्या0 / 2021 / 987

दिनांक: 16-04-2021

परिपत्र

प्रायः यह देखा जा रहा है कि, कई छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय से लगातार दूरभाष व प्रार्थना-पत्र के माध्यम से सी0जी0पी0ए0 प्रतिशत में निकालने के (CGPA Grade Conversion) सूत्र के बारे में सूचना प्राप्त कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में, इस विश्वविद्यालय से सी0बी0सी0एस0 प्रणाली से उत्तीर्ण समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करना है, कि उत्तीर्ण सी0जी0पी0ए0 प्रतिशत में परिवर्तन का सूत्र विश्वविद्यालय से निर्गत मूल अंक-पत्र के पीछे अंकित है। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न अक-पत्र की फोटो प्रति


सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

INSTRUCTIONS

1. Original Grade Card will be issued once only.
2. Duplicate Grade Card can be obtained on production of a copy of FIR about missing/stolen Grade Card by depositing prescribed fee at University Cash counter or by sending demand draft in favour of Finance Officer, H.N.B. Garhwal University, Srinagar (Garhwal)-246174, Uttarakhand, if desired, by registered post.
3. In order to pass a PG/UG programme a student must secure the minimum number of credits as prescribed in the Ordinances of the University.
4. University reserves the right of correction in the Grade Card/result, in case of any error. In case of any difference in the grades entered in the Tabulation Chart and Grade Card, grades of the Tabulation Chart will be treated as correct and final.
5. Nomenclature and Conversion of Percentage of Marks obtained to Grade Points and Letter Grade:-

SGPA : Semester Grade Point Average.

CGPA : Cumulative Grade Point Average.

$$SGPA (S_i) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$$

where C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the Grade Point scored by the student in the i^{th} course.

$$CGPA = \frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$$

where S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.

Marks in Percentage (%) are equivalent to $CGPA \times 10$.

For PG and UG Courses

The following formula is used to convert marks (%) into Letter Grade.

Let \bar{X} (bar) = mean of % marks of all students appeared in the paper and class,

σ = Standard deviation,

m = % of marks obtained.

| Letter Grade | Grade Point | Formula |
|-------------------|-------------|---|
| O (Outstanding) | 10 | $(m > (\bar{X} + 2.5 \sigma) \text{ OR } m \geq 95)$. |
| A+ (Excellent) | 9 | $(m > (\bar{X} + 2.0 \sigma) \text{ OR } m \geq 85) \text{ AND } (m \leq (\bar{X} + 2.5 \sigma))$. |
| A (Very Good) | 8 | $(m > (\bar{X} + 1.5 \sigma) \text{ OR } m \geq 75) \text{ AND } (m \leq (\bar{X} + 2.0 \sigma))$. |
| B+ (Good) | 7 | $(m > (\bar{X} + 1.0 \sigma) \text{ OR } m \geq 65) \text{ AND } (m \leq (\bar{X} + 1.5 \sigma))$. |
| B (Above Average) | 6 | $(m > \bar{X} \text{ OR } m \geq 55) \text{ AND } (m \leq (\bar{X} + \sigma))$. |
| C (Average) | 5 | $(m > (\bar{X} - 0.5 \sigma) \text{ OR } m \geq 45) \text{ AND } (m \leq \bar{X})$. |
| D (Pass) | 4 | $(m > (\bar{X} - \sigma) \text{ OR } m \geq 35) \text{ AND } (m \leq (\bar{X} - 0.5 \sigma))$. |
| F (Fail) | 0 | $(m \leq (\bar{X} - \sigma) \text{ AND } m < 35)$. |
| Ab (Absent) | 0 | |